



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019
Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941–August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7365 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Council Barmer has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Barmer. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government

कार्यालय नगर परिषद बाड़मेर (राज.)

प्रपत्र "क"

वार्ड स.	वार्ड सीमाज्ञान
1.	विशाला रोड़ पर स्थित परिषद के उत्तरी सीमा से उत्तरी पश्चिम कोने से पश्चिमी सीमा के सहारे चलते हुए विशाला रोड़ पर स्थित जैन मन्दिर के उत्तरी रास्ते से मुख्य सड़क विशाला मार्ग पहुंचकर मुख्य सड़क के सहारे सहारे उत्तर चलते हुए उत्तरी सीमा तक। (सुथार बस्ती, हरिजन बस्ती, दर्जियों का वास, राणी रूपादे संस्थान के आस पास का क्षेत्र)
2.	तनसिंह सर्किल से विशाला रोड़ के सहारे सहारे उत्तर चलते हुए जैन मन्दिर तक पहुंचकर उत्तरी रास्ते से पश्चिम चलते हुए परिषद सीमा तक पहुंचकर सीमा के सहारे सहारे दक्षिण चलते हुए शिव मुण्डी को लेते हुए पूर्व चलकर वैणासर की दक्षिणी सीमा को लेते हुए जोशियों की बगेची रास्ते से पूर्व चलते हुए तनसिंह सर्किल तक। (भादो का वास, शरणार्थी बस्ती शिव मुण्डी रोड़)
3.	जोशियों की पोल के पास स्थित पणिहारी हेण्डीक्राफ्ट के उत्तरी रास्ते से पश्चिम चलते हुए तनसिंह सर्किल तक वहां से सीधा परिषद की पश्चिमी सीमा तक पहुंचकर वहां से सीमा के सहारे सहारे चलते हुए जोशियों के उपरले वास तक पूर्व की ओर चलकर श्री दमजी जगभाथ जोशी के मकान के उत्तरी रास्ते से पूर्व चलते हुए सीधा चौक में वहां से पूर्व की ओर रोड़ के सहारे श्री गोपाल जोशी की दुकान के आगे से होते हुए पनघट रोड़ पर हनुमान जी के मन्दिर के पश्चिमी कॉर्नर तक पहुंचकर वहां से दक्षिणी रास्ते से सीधा पूर्व चलते हुए ए. के. चौपडा निवास तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए आदर्श शिक्षण संस्थान के कार्यालय के पूर्वी छोटे रास्ते से उत्तर चलते हुए जोशियों की पोल तक। (जोशियों का निचला वास, जोशियों का उपरला वास हनुमान मन्दिर के पीछे वाली गली, पनघट रोड़ का पूर्वी भाग)
4.	पनघट रोड़ पर स्थित श्री पारसमल पुत्र श्री रूपचन्द की दुकान से उत्तर सड़क के सहारे

	<p>सहारे चलते हुए श्री रिखबदास पुत्र श्री फोजमल सोनी के मकान के उत्तरी रास्ते से पश्चिम में सीधा चलते हुए दामोदर जोशी के मकान से चलकर जोशियों का उपरला वास में स्थित दमजी जगन्नाथ के उत्तरी रास्ते से आगे पहाड़ पर परिषद की सीमा तक वहां से दक्षिण में नगर परिषद सीमा के सहारे चलते हुए श्री लादूराम कोटवाल के मकान के सामने गली से पूर्व श्री रूघा मोची के मकान के पास दक्षिण मुड़कर श्री रिखबदास गणेशमल के मकान से पूर्व चलते हुए पूर्व की ओर चलते हुए दर्जियों के नोहरे दक्षिणी गली से पूर्व चलते हुए सोनी पारसमल की दुकानों की दक्षिण हद तक । (मोचियों का वास, दर्जियों का वास, जोशियों का उपरला वास)</p>
5.	<p>हनुमान जी के मन्दिर के पास स्थित शिव प्रकाश सोनी की दुकान के पूर्वी रास्ते से उत्तर की ओर चलते हुए सोनी पारसमल की दुकान से दक्षिण रास्ते से पश्चिम चलते हुए सुनारों का वास से श्री वासूदेव सोनी के मकान की पश्चिमी गली से थोड़ा दूर उत्तर चलकर पड़ाईयो के वास से पश्चिम मुड़कर श्री रिखबदास गुणेशमल के मकान से उत्तर मुड़कर मोचीयों के वास में रूगाराम मोची के मकान के पास से पश्चिम मुड़कर लाधू कोटवाल के मकान के आगे से पहाड़ पर नगर परिषद सीमा के सहारे दक्षिण की तरफ चलते हुए गढ मन्दिर की सीढियों से पूर्व चलते हुए आजाद चौक पहुंचकर वहां से बावडी के उत्तरी रास्ते पूर्व चलते हुए थोड़ा उत्तर चलकर पूर्व मुड़कर सीधा चलते हुए शिव प्रकाश सोनी की दुकान तक । (मूर्थों वाली गली वृद्धिचन्द जैन की गली, खागल पाधर मोहल्ला, एवं सेवको का वास)</p>
6.	<p>बाजार स्थित कबूतरों के चौतरे के पश्चिम और बावडी तक चलते हुए उत्तरी रास्ते से पश्चिम की ओर सीधे गढ की पहाड़ी की सीढियों के सहारे सहारे चलते हुए गढ पहाड़ को लेते हुए चादां नाई के मकान के आगे उत्तरते हुए थोड़ा आगे चलकर दक्षिण मुड़कर डॉ केशरी मल के मकान के आगे से होते हुए श्री प्रीतमचन्द जी जैन के मकान के आगे से होते हुए मेघवालों के कुएं के पास स्थित तोगाराम जी के मकान तक पहुंचकर पूर्व मुड़कर चंचल प्राग मठ को लेते हुए गाडा चौक तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए बाजार स्थित कबूतरों के चौक तक । (भड़भूजों की गली, मालियों का वास, खत्रियों का वास, नाईयों का वास चंचल प्राग मठ के पास)</p>
7.	<p>पहाड़ी पर स्थित गोतम आचार्य के मकान से उत्तर चलते हुए आचार्यों के चौक पर स्थित रामस्वरूप के मकान तक पहुंचकर सीधा चलते हुए उगमराम के मकान तक पहुंचकर पश्चिम मुड़कर सीधा चलते हुए मेघवालों के कुएं तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर पूर्व चलते हुए प्रीतमदास जैन के मकान के आगे से डॉ केशरीमल केशरी के मकान की गली को लेते हुए चान्दा नाई के मकान के आगे से चलते हुए गढ पहाड़ी की पश्चिमी तक वहां से सीमा के सहारे मेघवालो की खागली में नगर परिषद सीमा तक, आगे दक्षिण ढलाई तक, वहां से सीधा पूर्व की ओर गोतम आचार्य के मकान तक । (आचार्यों का वास, मेघवालो की खांगली।)</p>
8.	<p>पुरानी ढाणी पोस्ट ऑफिस से थोड़ा पश्चिम चलते हुए पुनः दक्षिण चलते हुए आचार्यों के कुएं के पास स्थित रामचन्द्र भवन के पश्चिमी रास्ते से सीधा दक्षिण चलते हुए पहाड़ी की ढाल तक वहां से पूर्व चलते हुए पानी के होज तक पहुंचकर वहां से दक्षिण की तरफ पार्सप लाईन के सहारे सहारे नीचे चलते हुए श्री जीयाराम मोची के मकान तक पहुंचकर उत्तर दिशा में चलते हुए पीपली से गाडा चौक तक पहुंचकर थोड़ा पश्चिम चलकर पुराने पोस्ट ऑफिस भवन की पूर्वी सीमा तक । (ढाणी बाजार, सेवको का वास, ढाणी जैन मन्दिर के आस पास, धर्मसी मार्ग)</p>
9.	<p>ढाणी बाजार स्थित चिन्दणियों की जाल के पास स्थित पानी के होद से सीधा पश्चिम की ओर चलते हुए सांवताराम नाई के मकान को लेते हुए परिषद की पश्चिमी सीमा तक पहुंचकर वहां से सीमा के सहारे सहारे दक्षिण चलते हुए गढरा रोड़ तक पहुंचकर पूर्व चलते हुए महावीर सर्कल से जूना केराडु मार्ग होते हुए जीयाराम मोची के मकान तक पहुंचकर उपर पानी के होद तक ।</p>

	(जुना केराडु मार्ग)
10	जुना केराडू मार्ग स्थित मोहनलाल उतमाराम मोची के मकान से पश्चिम चलते हुए महावीर सर्कल तक पहुंचकर गढरा रोड़ दक्षिण की तरफ परिषद की पश्चिमी सीमा तक पहुंचकर दक्षिण परिषद सीमा के सहारे सहारे चलते हुए रेल्वे लाईन तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे घरनाला तक पहुंचकर उत्तर दिशा में चलते हुए चिन्दणियों की जाल तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए मोहनलाल उतमाराम के मकान तक । (रोहिडा पाड़ा, जुना केराडु मार्ग का दक्षिणी भाग)
11.	बालाजी आयुर्वेदिक स्टोर से दक्षिण चलते हुए घरनाला तक वहां से रेल्वे लाईन के सहारे पूर्व चलते हुए रेल्वे क्रोसिंग तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर नेमीचन्द केसरीमल के मकान से उत्तर चलते हुए रामलाल जैन के मकान तक पहुंचकर उत्तरी रास्ते से पश्चिम चलते हुए बालाजी आयुर्वेदिक स्टोर तक । (नाहटो की गली, ढाणी बाजार शमशान मार्ग का पूर्वी भाग, महाबार मार्ग का पश्चिमी भाग)
12.	ढाणी बाजार पीपली के पास स्थित सिंघवी रेस्टोरेन्ट से दक्षिण चलते हुए मोतीलाल के मकान तक पहुंचकर पूर्व मुड़कर सीधा चलते हुए भैरव साड़ी सेन्टर के आगे से सीधा चलते हुए डी पी तक पहुंचकर दक्षिण मुड़कर वहां से थोड़ी दूर दक्षिण चलकर पुनः पूर्व में चलकर श्री सुरजमल के मकान को लेते हुए श्री अब्दूल रहमान की दुकान तक पहुंचकर वहां से दक्षिण चलकर श्री नारायण कलाल के मकान को लेते हुए गली के नुक्कड़ तक पहुंचकर वहां से दक्षिणी रास्ते से पूर्व चलकर नुक्कड़ पर स्थित चन्दुलाल/हीराजी के मकान तक पहुंचकर पुनः उत्तर चलते हुए श्री शंकरलाल दिशान्तरी के मकान के आगे से होते हुए थोड़ा पूर्व में चलकर पुनः उत्तर चलकर श्री अजीम ढोली के मकान को लेते हुए उत्तरी रास्ते तक पहुंचकर वहां से सीधा पश्चिम चलते हुए अब्दूल रहमान एवं ताज मोहम्मद के मकान को लेते हुए श्री गुलाब मोहम्मद के मकान के उत्तरी रास्ते से पश्चिम चलते हुए गंगा स्कूल वहां से सीधा उत्तर चलते हुए श्री बस्तीराम माली की दुकान तक पहुंचकर वहां से रोड़ के सहारे पश्चिम चलते हुए श्री केवल चन्द/तगामल की दुकानों तक पहुंचकर वहां से दक्षिण की ओर चलते हुए श्री हजारीमल के मकान तक पहुंचकर पश्चिम मुड़कर थोड़ा चलकर पीपली के पास स्थित सिंघवी रेस्टोरेन्ट तक । (नोहरे वाली गली, ढाणी न. 3 के आस पास, कसाईयों का वास का आधा भाग)
13.	करमुजी की गली में स्थित भैरव साड़ी सेन्टर के पश्चिमी रास्ते से सीधा दक्षिण चलते हुए न. 4 स्कूल तक पहुंचकर पूर्व मुड़कर इण्डियन ऑयल पम्प के पश्चिम की तरफ गली से उत्तर चलकर श्री सुल्तानमल/हरदासमल के मकान को लेते हुए सीधा उत्तर चलते हुए जटियों के वास में स्थित श्री शंकरलाल/राणामल जैन का बना चीणो का हत्था तक पहुंचकर वहां से सड़क पार कर श्री आन्नद/द्वारकादास राठी के बने गैरेज तक पहुंचकर वहां से सीधा पूर्व चलते हुए श्री शम्भुनाथ जी के मकान तक पहुंचकर वहां से थोड़ा उत्तर चलते हुए श्री चन्दुलाल के मकान के दक्षिणी गली से पश्चिम चलते हुए श्री सुरतान मल/चोथमल के मकान की सीध तक पहुंचकर पुनः उत्तर चलते हुए गली के नुक्कड़ तक वहां से पश्चिम चलते हुए श्री सम्पतराम के मकान तक पहुंचकर वहां से सड़क पार कर स्थित श्री टील चन्द/लक्ष्मणदास के भवन तक वहां से उत्तरी रास्ते से पश्चिम की तरफ चलते हुए भैरव साड़ी सेन्टर तक । (महाबार रोड़ पूर्वी, जामवन्त जी गली, कसाईयों का चौक दक्षिणी भाग, जटियों की गली)
14.	जटियों के वास में स्थित श्री शंकर लाल जी/राणामल के बने चौबिते के पूर्वी रास्ते से सीधा दक्षिण चलते हुए इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प के पश्चिमी कोने तक पहुंचकर रोड़ पार कर थोड़ा सा पश्चिम चलकर रेल्वे क्रोसिंग के पास पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे पूर्व चलते हुए उत्तर मुड़कर श्री तोगाराम जी की दुकान को लेते हुए सड़कपार कर श्री हीरा नाई के गैरेज तक, वहाँ से पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुये श्री चेतन कबाड़ी, श्री छगनलाल पूर्व पार्श्व के मकान तक पहुंचकर वहां से थोड़ा उत्तर चलकर पुनः पश्चिम

	चलकर श्री ताराचन्द माली के मकान तक पहुंचकर वहां से थोड़ा दक्षिण की ओर चलकर पुनः पश्चिम चलकर श्री शंकरलाल दिशान्तरी के मकान तक के आगे होते हुए दक्षिण की ओर चलकर कबूतरों के चबूतरे तक वहाँ से पश्चिम की ओर चलते हुए गंगाबाई के मन्दिर के उत्तरी रास्ते से सीधा चलते हुए श्री शंकरलाल/राणाराम जैन के चीणों के चौबिते की उत्तरी सीमा तक। (जटियों का वास, शरणार्थी क्वार्टर)
15.	शिवकर रोड़ पर स्थित रिखबदास ठेकेदार के मकान के उत्तरी रास्ते से पश्चिम चलते हुए श्री हस्तीमल जैन के मकान से केशरीमल के मकान पहुंचकर वहां से पश्चिम रास्ते से दक्षिण चलते हुए प्रताप जी की प्रोल मुख्य सड़क तक पहुंचकर पश्चिमी की ओर सीधा चलते हुए बस्तीराम माली की दूकान से पूर्वी रास्ते से दक्षिण चलते हुए अब्दुल शकुर कसाई के मकान के उत्तरी गली से पूर्व चलते हुए देवाराम देशान्तरी के मकान तक पहुंचकर वहां से थोड़ा दूर चलते हुए श्री चन्द मास्टर की उत्तरी गली से पूर्व चलते हुए वहां से दक्षिण चलते हुए चौक पहुंचकर पूर्व मुड़कर चौहटन रोड़ पहुंचकर रोड़ के सहारे सहारे उत्तर चलते हुए रिखबदास ठेकेदार के मकान तक। (हमीरपुरा, प्रतापजी की प्रोल रोड़)
16.	सुभाष चौक के पूर्वी कोर्नर से दक्षिण चौहटन रोड़ चलते हुए कॉपरेटिव सोसायटी तक पहुंचकर पश्चिम मुड़कर सीधा चेतन जटियों की दुकान चौक पहुंचकर वहां से दक्षिण चलते हुए मुख्य चौहटन रोड़ पार कर रेल्वे लाईन तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए रेल्वे क्रोसिंग पार कर रेल्वे क्वार्टर तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए सुभाष चौक के पूर्वी कोर्नर तक। (मेढ सुनारो का वास, पुराना जाटावास, कॉपरेटिव सोसायटी के पास का क्षेत्र, जटियों का वास)
17.	अम्बेडकर सर्कल पर बनी मोहनसिंह राजपुरोहित की दुकानों के दक्षिण कोर्नर से पूर्व चलते हुए मारवाड़ मोटर्स तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए रेल्वे लाईन के पास बने सुरेश गंगाराम जटिया के मकान तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए रेल्वे लाईन के सहारे सहारे क्रोसिंग तक पहुंचकर सड़क पार कर पेट्रोल पम्प के पीछे से दक्षिण चलते हुए चौहटन रोड़ तक पहुंचकर वहां से पूर्व मुड़कर मोहनसिंह की दुकानों तक। (रैन बसेरा के पीछे वाली गलीयाँ व जटियों के कुण्ड)
18.	नेशनल हाईवे पर लक्ष्मी बेटरी दुकान (ट्रक युनियन की दुकानों) से पूर्व चलते हुए मांगीलाल/रिखबदास की दुकान तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए रेल्वे लाईन के पास स्थित अहम्मद खां के मकान तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए सुखदेव हीरालाल जटिया के मकान तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए लक्ष्मी बेटरी दुकान तक। (जटियों का नया वास)
19.	रेल्वे लाईन के पास स्थित वहीद खां के मकान से रेल्वे लाईन के सहारे-सहारे चलते हुए पुलिया न. 45 तक पहुंचकर रेल्वे बाउण्ड्री के सहारे सहारे पूर्व दिशा में अमरसिंह/किशनसिंह के मकान से प्रेमचन्द मेवाडा का मकान को लेते हुए केवलचन्द माली के मकान तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए मेघराज लक्ष्मणदास के मकान तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए वहीद खां के मकान तक। (शास्त्री नगर)
20.	केवलचन्द माली के मकान के सामने स्थित बाड़े से एन. एच. 15 पर स्थित टी. वी. एस शो रूम तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए कोगटा फाईनेन्स तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर बाबुलाल/भुराराम के मकान तक पहुंचकर पूर्व चलते हुए केवलचन्द के मकान के सामने स्थित बाड़े तक। (शास्त्री नगर)
21.	अम्बेडकर सर्किल से चौहटन जाने वाले रोड़ उत्तरी पश्चिमी बिन्दू के बायीं तरफ चलते हुए मोहन जी का क्रेशर पर स्कुल जाने की सड़क से वन विभाग क्षेत्र की सीमा के सहारे सहारे महाबार मार्ग तक पहुंचकर मार्ग पार कर सीधा चलते हुए कैलाश

	इन्टरनेशनल होटल आने वाले रास्ते से उत्तर मुड़कर सीधा चलते हुए एन. एच. 15 तक पहुंचकर पश्चिम मुड़कर अम्बेडकर सर्किल से चौहटन रोड़ जाने वाले उत्तरी पश्चिमी बिन्दू तक। (मोहन जी का क्रेसर जोगियों की दडी)
22.	एन. एच. 15 पर स्थित होटल कैलाश इन्टरनेशनल के पूर्वी रास्ते से दक्षिण चलते हुए परिषद की सीमा तक पहुंचकर सीमा के सहारे पूर्व चलते हुए टाउनशिप 60 फीट रोड़ तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर एन. एच 15 तक पहुंचकर पश्चिम चलकर होटल कैलाश इन्टरनेशनल के पूर्वी रास्ते तक। (जोगियों की दडी टाउनशिप)
23.	बजरंग किराणा स्टोर के आगे से उत्तर चलते हुए मूलसिंह डिप्टी के घर को जाने वाली मुख्य सड़क के सहारे सहारे चलते हुए रेल्वे बाउण्ड्री के पास स्थित श्री गोपालसिंह सावन्तसिंह के मकान तक पहुंचकर वहां से पश्चिम चलते हुए ब्राह्मण लॉज वालों के मकान को लेते हुए श्री रिडमल सिंह चौहान के मकान पहुंचकर वहां से दक्षिण मुड़कर पुलिया न.45 की मुख्य सड़क को लेते हुए एन. एच. 15 तक पहुंचकर पूर्व चलकर जोधपुर मोटर्स तक पहुंचकर पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए श्री अमराराम गोदरा के मकान पास स्थित बाड़े के सामने पहुंचकर पूर्व मुड़कर बजरंग किराणा स्टोर तक। (शास्त्री नगर का पश्चिमी भाग)
24.	श्री मूलसिंह डिप्टी के मकान के सामने स्थित प्लाट के कोर्नर से एन.एच. 15 जाने वाली सड़क से दक्षिण चलते हुए बजरंग किराणा स्टोर के सामने तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए श्री अमराराम गोदारा के मकान के पास स्थित बाड़े तक पहुंचकर पश्चिमी रास्ते से दक्षिण चलते हुए एन. एच. 15 पर स्थित राजु टायर टुयुब पेंचिंग तक पहुंचकर आगे टाउन शिप योजना 60 फीट रोड़ के पूर्व में परिषद सीमा तक पहुंचकर परिषद सीमा के सहारे सहारे जोगमाया मन्दिर तक, जोगमाया मन्दिर के कोर्नर से तनसिंह गैरेज सड़क होते हुए बायीं तरफ चलते हुए श्री मूलसिंह डिप्टी के मकान के सामने स्थित प्लॉट के कोर्नर तक। (शास्त्री नगर का पूर्वी भाग)
25.	श्री मूलसिंह डिप्टी के मकान से तनसिंह गैरेज होते हुए एन.एच. 15 जाने वाली सड़क के बांयी तरफ चलते हुए एन.एच. 15 के सहारे सहारे परिषद सीमा में बांयी तरफ दिशा की तरफ चलते हुए एन एच 15 पर स्थित मेट्रो मार्बलस के पास स्थित गली से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए सुथारों के नोहरे के पास होते हुए सुथारों के नोहरे के उत्तर दिशा की तरफ चलते हुये श्री सवाई राम / अर्जुनराम सुथार के मकान के कोर्नर से पश्चिम चलते हुए थोड़ा सा उत्तर चलकर पुनः पश्चिम चलते हुए श्री नारणाराम जी भैराराम जी हरिजन के मकान पहुंचकर रेल्वे बाउण्ड्री तक , रेल्वे बाउण्ड्री से मूलसिंह डिप्टी के मकान तक। (गांधी नगर, राजपूतों एवं सुथारो रावणा राजपूतो की बस्ती)
26.	पूर्व विधायक गंगाराम जी के मकान से आगे बने रेल्वे क्रॉसिंग 327 से आगे कृषि मण्डी रोड़ के सहारे सहारे चलते हुए रेल्वे सीमा के सहारे सहारे सीधा उत्तर चलते हुए श्री गोरधन पुरी/किशनपुरी के मकान से पूर्व की तरफ चलते हुए नवलाराम/खुमाराम चौधरी के मकान से दक्षिण चलते हुए सुथारो के नोहरे के सामने पहुंचकर पूर्व चलते हुए एन. एच. 15 स्थित मेट्रो मार्बल के आगे परिषद सीमा तक पहुंचकर परिषद सीमा के सहारे उत्तर की तरफ चलते हुए कृषि मण्डी के उत्तरी पूर्वी कोर्नर पहुंचकर मुख्य सड़क के सहारे बीएसएफ की दक्षिणी तारबन्दी तक पहुंचकर वहां से पश्चिमी सीमा से उत्तर चलते श्री दुर्गाराम चौधरी के मकान तक पहुंचकर वहां से पश्चिम चलते हुए मुख्य रोड़ पर रोड़ के सहारे चलते हुए हेमसिंह/भुरसिंह के मकान को लेते हुए रेल्वे लाईन तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे पुनः रेल्वे फाटक सं. 327 तक। (गांधी नगर चौधरीयों की बस्ती, रेल्वे कोलोनी, नेहरू नगर)
27.	हिन्दूस्तान पेट्रोल पम्प के उत्तरी रास्ते से थोड़ा पश्चिम चलते हुए उतर मुड़कर पुनः

	<p>पश्चिम चलते हुए कल्याणपुरा माणक होस्पिटल को लेते हुए श्री मेवाराम जैन के बने मकान तक वंहा से दक्षिण चलकर गोविन्दराम के मकान तक पहुंचकर वहां से पश्चिम चलते हुए भंवरलाल हरसाणी वालो के मकान के पूर्व रास्ते तक वहां से दक्षिण चलते हुए गली के नुक्कड़ पर स्थित श्री आसुलाल के मकान के पूर्व रास्ते तक वहां से पूर्व चलते हुए श्री जोरावरमल के मकान के दक्षिण सीमा तक पहुंचकर सामने स्थित रिखबदास हरसाणी वालो के मकान को लेते हुए श्री <u>भुरचन्द/गणेशमल</u> के मकान के आगे से पूर्व चलकर श्री शेरमल ढाटी के मकान के सामने पहुंचकर वहां से श्री सुरतानमल जैन के मकान के पश्चिम रास्ते से दक्षिण चलते हुए शिवकर रोड़ पर स्थित श्री भगवानदास/लक्ष्मणदास के मकान तक वहां से पूर्व चलते हुए शिवकर रोड़ चौराहे तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए पेट्रोलपम्प तक। (महावीर चौक, कल्याणपुरा, माणक अस्पताल के पास)</p>
28.	<p>कल्याणपुरा मार्ग न. 4 पर स्थित डॉ रणजीतमल जैन के मकान के दक्षिणी रास्ते से पश्चिम चलते हुए बंशीलाल वडेरा के मकान तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए मालियो के नोहरे में स्थित भीखचन्द लूणिया की दुकानों के आगे से पूर्व मुड़कर सीधा चलकर शंकरलाल धारीवाल के मकान से उगमणी गली से उत्तर चलते हुए श्री मेवाराम/गंगाराम के मकान के पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए शिवकर रोड़ पर स्थित श्री दयाराम/शम्भुराम के मकान के आगे से पूर्व चलते हुए श्री चान्दमल के मकान से पूर्वी गली से उत्तर चलते हुए शेरमल ढाटी के मकान से पश्चिम मुड़कर सीधा आगे चलकर थोडा उत्तर चलकर डॉ रणजीतमल जैन के मकान के दक्षिणी कोर्नर तक। (वजीरो का वास, अफीम के ठेके वाली गली)</p>
29.	<p>पुरानी सब्जी मण्डी स्थित महादेव नमकीन भण्डार पश्चिमी रास्ते से दक्षिण चलते हुए बाबु हेयर ड्रेसर तक पहुंचकर पूर्व मुड़कर ओसवाल न्याति नोहरे के आगे से थोडा पूर्व चलकर प्रतापजी की प्रोल तक पहुंचकर वहां से पूर्व चलते हुए भीखाराम लुणिया की दुकान के पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए मोबताराम वजीर के मकान से नरगासर से आने वाली मुख्य सड़क पर स्थित डामरचन्द के मकान तक पहुंचकर पूर्व मुड़कर थोडा चलकर उत्तमचन्द के मकान के पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए तैलियो का वास मुख्य सड़क तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए महादेव नमकीन भण्डार तक। (गोलेच्छा गली ,रतनसिंह बाजार, खत्रियो का निचला वास नरगासर के पास)</p>
30.	<p>तैलियो का वास स्थित ओसवाल हाटो वाला भवन के पश्चिमी रास्ते से दक्षिण चलते हुए ताराचन्द के मकान तक पहुंचकर पश्चिम मुड़कर थोडा चलकर भुरचन्द गणेशमल के मकान के पश्चिम रास्ते से दक्षिण चलते हुए पूर्व मुड़कर पूर्व पार्शद लक्ष्मीनारायण खत्री के मकान तक पहुंचकर सीधा दीपक राठी के मकान को लेते हुए धमेन्द्र चिन्तामणदास के मकान तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर थोडा चलकर पूर्व मुड़कर अरुण मेडीकल वालो के मकान को लेते हुए पुनः उत्तर चलकर तैलियो का वास मुख्य सड़क तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए ओसवाल हाटो वाला नोहरा तक। (कल्याणपुरा, खत्रियो का निचला वास, तैलियो की गली का दक्षिणी भाग)</p>
31.	<p>गांधी चौक से पश्चिम चलते हुए हनुमान जी के मन्दिर चौक तक वहां से श्री सत्यनारायण मन्दिर के दक्षिणी कोने तक पहुंचकर दक्षिणी रास्ते से सीधा पूर्व की ओर चलते हुए तैलियो का वास स्थित अलादीन तैली की दुकान से दक्षिण चलते हुए पूर्व मुड़कर माणक अस्पताल के उत्तरी रास्ते से सीधा चलते हुए गर्ल्स स्कूल के पूर्वी रास्ते में उत्तर मुड़कर थोडा चलकर माल गोदाम रोड़ पार कर सिन्धी मन्दिर से पश्चिम चलते हुए स्थानक वासी जैन भवन के पूर्वी गली से उत्तर चलकर पश्चिमी मुड़कर सीधा चलकर राजसाडी के पश्चिमी रास्ते से उत्तर चलकर मुख्य स्टेशन रोड़ पहुंचकर पश्चिम चलते हुए पुलिस कोतवाली के आगे से गांधी चौक तक। (तैलियो का वास का उत्तरी भाग, राजपूत छात्रावास स्कूल न.1 के पास का क्षेत्र)</p>
32.	<p>सुभाष चौक स्थित नारायण माली की दूकान से लक्ष्मी टॉकिज होते हुए रेल्वे लाईन तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे मुख्य द्वार से मार्ग चलकर पश्चिमी चलते हुए हाई</p>

	स्कूल मुख्य मार्ग से होम्योपैथिक चिकित्सालय के पूर्वी रास्ते से दक्षिण चलते हुए स्टेशन रोड़ पहुंचकर पूर्व मुड़ कर वैद्यवल्लभ शास्त्री दवाखाना से दक्षिण चलकर अग्रवालों की गली से पूर्व चलते हुए जे. पी. सिंहल के नये निमार्णाधीन भवन के दक्षिणी कोर्नर पहुंचकर दक्षिण चलकर पूर्व मुड़कर मन्दिर तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए माल गोदाम रोड़ पार कर दक्षिण चलते हुए सुभाष चौक स्थित नारायण माली की दुकान तक। (गुरुद्वारा रोड़, माल गोदाम रोड़, अग्रवाल मोहल्ला, पुरानी पोस्ट ऑफिस गली, भगतो की गली, हाई स्कूल रोड़ दक्षिणी भाग)
33.	माहेश्वरी भवन के पूर्वी कोर्नर से उत्तर चलते हुए हरीजन बस्ती रास्ते से कब्रिस्तान पहुंचकर पश्चिम मुड़कर सीधा चलते हुए विवादित चौक से पातालेश्वर मन्दिर तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए सड़क पार कर जोशियों की पोल के अन्दर होते हुए आदर्श शिक्षण संस्थान के कार्यालय के पूर्वी कोर्नर तक पहुंचकर पूर्व से चलते हुए नगर परिषद कार्यालय के पश्चिम में बने शुलभ कॉम्प्लेक्स तक पहुंचकर दक्षिण मुड़कर पुनः पूर्व चलते हुए पुलिस कोतवाली को लेते हुए जैन भोजनशाला तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर पूर्व चलते हुए माहेश्वरी भवन के पूर्वी कोर्नर तक। (कब्रिस्तान के पास कसाईयो का वास, मीनुस्ट्रीट, माहेश्वरी भवन के आस पास)
34.	माहेश्वरी भवन के पास स्थित बाबा रामदेव सत्संग भवन से पूर्व चलते हुए सीनियर हाई स्कूल को लेते हुए कचहरी रोड़ तक पहुंच कर, रोड़ पार कर रेल्वे लाईन तक पहुंचकर, रेल्वे लाईन के सहारे उत्तर चलते हुए किसान छात्रावास के सामने बने रेल्वे फाटक तक पहुंचकर फाटक के पास बने क्वार्टरो को लेते हुए पश्चिम चलते हुए किसान छात्रावास व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को लेते हुए कब्रिस्तान के सामने स्थित प्रेम शर्मा के मकान तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए माहेश्वरी भवन के पास स्थित बाबा रामदेव सत्संग भवन तक। (हरिजन बस्ती, शिव कुटिया के पास बी. एस. एन. एल. क्वार्टर)
35.	राय कॉलोनी स्थित स्व. श्री आत्माराम खत्री के मकान से पश्चिम रास्ते से सड़क के सहारे दक्षिण चलते हुए श्री गंगाराम माहेश्वरी के मकान को लेते हुए थोडा दक्षिण चलते हुए पुनः पूर्व की ओर सड़क के सहारे पूर्व चलते हुए कन्या महाविद्यालय के सामने जाने वाली मुख्य सड़क तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए विश्वकर्मा सर्किल तक पहुंचकर वहां से पश्चिम चलकर स्व. आत्माराम खत्री के मकान तक। (लक्ष्मीपुरा, सुखाणियों की गली, माहेश्वरी बस्ती)
36.	शहीद उगमसिंह सर्किल के पास स्थित पुलिस लाईन दीवार के सहारे दक्षिण चलते हुए डाक बंगला विवेकानन्द सर्किल तक को लेते हुए किसान छात्रावास के सामने स्थित रेल्वे क्रॉसिंग तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे उत्तर पूर्व चलते हुए रेल्वे क्रॉसिंग तक पहुंचकर सर्किट हाउस तक पहुंचकर वहां से पश्चिम चलकर बीएसएफ बाउण्डरी के उत्तरी कोर्नर के सहारे पश्चिम चलते हुए बीएसएफ तारबन्दी के पास स्थित महेन्द्र रुघाराम की दुकानों से उत्तर चलते हुए मुख्य सी. सी. रोड़ पर स्थित मोहनलाल के मकान तक पहुंचकर पश्चिम मुड़कर सीधा चलते हुए विद्युत विभाग की बाउण्ड्री तक पहुंचकर वहां से दक्षिण चलते हुए शहीद उगमसिंह सर्किल के पास स्थित पुलिस लाईन दीवार तक। (पुलिस लाईन, मधुबन कॉलोनी, पंचायत समिति के आस पास का क्षेत्र कर्मचारी कोलोनी, इन्दिरा कोलोनी)
37.	नेहरू नगर रेल्वे लाईन के सहारे स्थित पटवार भवन से पूर्व चलते हुए गुलाम तैली की दुकान तक पहुंचकर पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए माणकलाल वर्मा छात्रावास को लेते हुए सीधा रेल्वे लाईन तक पहुंचकर रेल्वे लाईन के सहारे सहारे दक्षिण चलते हुए रेल्वे लाईन के पास स्थित पटवार भवन तक। (मेघवाल, भील, लोहार बस्ती, नेहरू नगर)
38.	नेहरू नगर रेल्वे क्रॉसिंग 226 के पास स्थित अनिल थॉमस के मकान के पास रेल्वे बाउण्ड्री के सहारे दक्षिण चलते हुए श्री लाधुराम विश्नोई के मकान तक पहुंचकर वहां से

	<p>पूर्व चलते हुए बीएसएफ की पश्चिमी सीमा के पास स्थित दुर्गराम चौधरी के मकान तक पहुंचकर वहां से बीएसएफ की सीमा के सहारे उत्तर चलते हुए जोधपुर रोड़ पार कर, जानवरो के अस्पताल की ओर जाने वाली रोड़ से स्टेडियम के दक्षिण द्वार तक पहुंचकर वहां से स्टेडियम बाऊण्डी के सहारे चलते हुए स्टेडियम के मुख्य द्वार तक। वहां से थोडा पश्चिम चलकर मुख्य सड़क पर चलते हुए श्री करण सिंह की पवन होटल तक पहुंचकर सड़क पार कर पश्चिम चलते हुए अनिल थॉमस के मकान तक। (नेहरू नगर, सिंधी कॉलोनी)</p>
39.	<p>रामुबाई स्कूल से पूर्व चलते हुए जलदाय विभाग की पानी टंकी तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए 80 फीट रोड़ तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए स्टेडियम बाऊण्डी तक पहुंचकर कचरा पोईन्ट रेल्वे बाऊण्डी के सहारे चलते हुए पोस्ट ऑफिस कॉलोनी लेते हुए स्टेडियम बाऊण्डी के सहारे जानवरो के अस्तपताल के आगे से होते हुए रामुबाई स्कूल तक। (महावीर नगर व स्टेडियम के पास)</p>
40.	<p>वृद्धिचन्द्र जैन बस स्टेण्ड के सामने स्थित खनिज विभाग कार्यालय से पूर्व चलते हुए शहीद चौराहा से आगे परिषद सीमा तक पहुंचकर वहां से उत्तर चलते हुए बजाज शो रूम तक पहुंचकर पश्चिम मुड़कर गोपाल सिंह चौधरी के मकान से पश्चिम चलते हुए सरला चौधरी क्वाटर तक पहुंचकर दक्षिणी मुड़कर हरजीराम के मकान को लेते हुए पश्चिम चलकर महेश कुमार/खुशालाराम के मकान के सामने स्थित खाली प्लाट तक पहुंचकर दक्षिण मुड़कर 80 फीट रोड़ पार कर खनिज विभाग तक। (महावीर नगर के आस पास का क्षेत्र)</p>
41.	<p>बजाज शो रूम से रेल्वे क्रोसिंग सर्किट हाउस होते हुए रेल्वे लाईन के सहारे सहारे कचरा पोईन्ट पहुंचकर सीधा 80 फीट मुख्य सड़क का उत्तरी भाग लेते हुए पानी की टंकी तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर महेशकुमार/खुशालाराम के मकान तक पहुंचकर पूर्व चलते हुए निर्माणाधीन मकान तक पहुंचकर उत्तर मुड़कर सोनाराम/भीमाराम की दुकानों/मकान को लेते हुए पूर्व चलकर कस्टम क्वाटर से बजाज शो रूम तक। (महावीर नगर)</p>
42.	<p>एन. एच. 15 स्थित कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी से सीधा उत्तर दिशा में चलते हुए आशापूर्णा टाईल्स एण्ड सेनेट्री दुकान तक पहुंचकर उत्तरी रास्ते से सी सी रोड़ के सहारे सहारे पश्चिम चलते हुए मोहनलाल के मकान तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए बीएसएफ तारबन्दी के पास स्थित महेन्द्र रूगाराम की दुकानों तक पहुंचकर बीएसएफ तारबन्दी के सहारे सहारे पूर्व चलते हुए एन. एच. 15 पर स्थित कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी तक। (इन्दिरा कॉलोनी का दक्षिणी भाग)</p>
43.	<p>इन्द्रा कॉलोनी मुख्य सी सी रोड़ पर स्थित नीलम आईस्क्रीम से सड़क के सहारे सहारे पूर्व चलते हुए एन. एच 15 पर स्थित नखताराम की दुकानों तक पहुंचकर एन. एच. 15 के सहारे उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए परिषद की सीमा तक पहुंचकर वहां से सीधा पश्चिम की तरफ परिषद की सीमा के सहारे सहारे चलते हुए दक्षिणी की तरफ मुड़कर नीलम आईस्क्रीम तक । (इन्दिरा कॉलोनी का उत्तरी पूर्वी भाग)</p>
44.	<p>उगमसिंह सर्कल से इन्दिरा कोलोनी मुख्य सड़क के सहारे सहारे उत्तरी भाग को लेते हुए नीलम आईस्क्रीम तक पहुंचकर नीलम आईस्क्रीम के पश्चिमी रास्ते से उत्तर चलते हुए परिषद सीमा तक वहां से सीधा पश्चिम की तरफ सीमा के सहारे सहारे चलते हुए चारण छात्रावास तक पहुंचकर आन्नद मंगल विहार कोलोनी के पूर्वी रास्ते से दक्षिण चलते हुए उगमसिंह सर्कल तक। (इन्दिरा कॉलोनी, न्याय वाटिका, विद्युत कोलोनी)</p>
45.	<p>पुलिस लाईन गेट के सामने स्थित श्री करणी किराणा स्टोर से उतर की तरफ चलते हुए जिला कारागृह विद्युत विभाग को लेते हुए आनन्द मंगल विहार कॉलोनी के उतरी पूर्वी कोर्नर तक पहुंचकर पश्चिम दिशा की तरफ परिषद सीमा के सहारे सहारे हिंगलाज कॉलोनी संस्कृत विद्यालय होते हुए बोर्डर होम गार्ड के पश्चिमी कोर्नर से उतर की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए मुख्य सी.सी. रोड़ पार कर वन</p>

	<p>विभाग बाउण्डी तक पहुँचकर वहाँ से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए बोर्डर होम गार्ड को लेते हुए आकाशवाणी के मुख्य द्वार तक पहुँचकर थोड़ा पूर्व चलकर दक्षिण मुड़कर सीधा दक्षिण चलते हुए सी.डी. मोडल ऐकेडमी विद्यालय के सामने स्थित नरपत सिंह के मकान तक पहुँचकर पूर्व चलते हुए पुलिस लाईन गेट के सामने स्थित श्री करणी किराणा स्टोर तक। (इन्दिरा नगर, लक्ष्मी नगर, बोर्डर होम गार्ड, आनन्द-मंगल विहार कॉलोनी, जिला कारागृह)</p>
46.	<p>इन्दिरा कॉलोनी स्थित सरस्वती विद्या मन्दिर विद्यालय के पश्चिमी कोर्नर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए कचराराम मेघवाल के मकान तक पहुँचकर दक्षिणी रास्ते से पूर्व चलते हुए सरस्वती विद्या मन्दिर जाने वाले रास्ते तक पहुँचकर दक्षिण मुड़कर थोड़ा चलकर मुख्य सी.सी. रोड़ पहुँचकर पश्चिम मुड़कर थोड़ा चलकर दक्षिण चलते हुए मोडली भाखरी विद्यालय के आगे से वन विभाग बाउण्डी तक पहुँचकर वन विभाग बाउण्डी के सहारे सहारे पूर्व चलते हुए बोर्डर होम गार्ड के पश्चिमी कोर्नर तक पहुँचकर उतर चलते हुए मुख्य सड़क पार कर परिषद की सीमा तक पहुँचकर सीमा के सहारे सहारे पश्चिम चलते हुए सरस्वती विद्या मन्दिर विद्यालय के पश्चिमी कोर्नर तक। (इन्दिरा नगर, हिंगलाज मन्दिर के पास)</p>
47.	<p>श्रीमान एस. पी. साहब के बंगले से सीधा उत्तर चलते हुए पुलिस लाईन के मुख्य द्वार के सामने वाली गली में पश्चिम चलते हुए सी.डी. मोडल ऐकेडमी विद्यालय तक पहुँचकर उत्तर चलते हुए आकाशवाणी की ओर जाने वाली रोड़ तक वहाँ से पश्चिम चलते हुए आकाशवाणी तक पहुँचकर वहाँ से वन विभाग की दीवार के सहारे दक्षिण चलते हुए श्री हरीराम चौधरी के मकान तक, वहाँ से थोड़ा पूर्व चलकर पुनः पूर्व मुड़कर श्री शोभाराम चौधरी के मकान की पश्चिमी गली वहाँ से थोड़ा उत्तर चलकर पुनः पूर्व चलकर मुख्य सड़क तक पहुँचकर मुख्य रोड पार कर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के बंगले के दक्षिण कोर्नर तक। (लक्ष्मीनगर आकाशवाणी क्वाटर)</p>
48.	<p>विश्वकर्मा सर्किल के पास स्थित श्री अश्विनी कुमार परिहार के मकान से पश्चिमी गली से दक्षिण चलते हुए कन्या महाविद्यालय तक पहुँचकर वहाँ से सीधा पूर्व चलते हुए कचहरी रोड तक पहुँचकर रोड के सहारे सहारे उत्तर चलते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के बंगले के दक्षिणी रास्ते से पश्चिम चलते हुए श्री शोभाराम सुथार के मकान के पश्चिमी रास्ते तक वहाँ से सड़क पार कर हरिराम चौधरी के मकान के पास वाली गली से वन विभाग की दीवार तक पहुँचकर वहाँ से दीवार के सहारे पश्चिम चलते हुए श्री बलदेव अध्यापक के मकान वाले रास्ते से सीधा दक्षिण चलते हुए पुराने विश्वकर्मा सर्किल के पास स्थित श्री अश्विनी कुमार के मकान की उत्तरी सीमा तक। (श्रीमालियों की गली राधा कृष्ण मन्दिर के आस पास का क्षेत्र , ऑफिसर कॉलोनी, अस्तपताल कॉलोनी, लक्ष्मीपुरा)</p>
49.	<p>राय कॉलोनी रोड पर स्थित परिहार निवास से पूर्व चलते हुए विश्वकर्मा सर्किल तक पहुँचकर उत्तर चलते हुए वन विभाग बाउण्डी तक पहुँचकर वन विभाग बाउण्डी के सहारे पश्चिम दिशा में चलते हुए पीताम्बर माली के मकान तक पहुँचकर दक्षिण मुड़कर सीधा पुखराज दवे के मकान तक पहुँचकर पश्चिम मुड़कर दुर्गादान बारहठ के मकान को लेते हुए भुरसिंह के मकान तक पहुँचकर पश्चिम रास्ते से दक्षिण चलते हुए राय कॉलोनी रोड पर स्थित परिहार निवास तक। (बेरियो का वास का पूर्वी भाग, रामदेव मन्दिर की गली)</p>
50.	<p>जाजु भवन से पूर्व चलते हुए पुखराज दवे के मकान के पश्चिम रास्ते से उत्तर चलते हुए दीनानाथ पाण्डे का मकान लेते हुए वन विभाग बाउण्डी तक पहुँचकर वन विभाग बाउण्डी के सहारे सहारे पश्चिम दिशा में चलते हुए जगमालसिंह राव के मकान के पश्चिमी रास्ते से दक्षिण चलकर पश्चिम मुड़कर सुरेन्द्र सिंह के गेरेज के पश्चिमी रास्ते से दक्षिण चलते हुए नीम्बराज देथा मार्ग के लगे पत्थर तक पहुँचकर दक्षिणी रास्ते से पूर्व चलते हुए</p>

	घमण्डीराम खत्री के मकान तक पहुंचकर दक्षिण चलते हुए आसुलाल सोनी के मकान को लेते हुए घनश्याम दवे के मकान तक पहुंचकर वहां से पूर्व चलते हुए मोतीलाल सोनी के मकान तक पहुंचकर वहां से पूर्व चलते हुए जाजु भवन तक । (बेरियो का वास का पश्चिमी भाग सरदारपुरा)
51.	पाँच बत्ती चौराहे से पूर्व चलते हुए स्व: पं. देवदत्त तिवारी के मकान तक पहुंचकर वहां से पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए श्री जुगतसिंह राव के मकान तक पहुंचकर वहां से सड़क के सहारे थोडा पश्चिम चलकर उत्तर मुड़कर सुधीन्द्र दवे के मकान को लेते हुए उत्तर चलकर चैनसिंह सौडा के मकान के पूर्वी कोने तक पहुंचकर उत्तरी रास्ते से पश्चिम चलते हुए सड़क पार कर उत्तर चलते हुए दोहट निवास तक पहुंचकर पश्चिम चलते हुए जोशियों के शमशान घाट के पूर्वी रास्ते से दक्षिण चलते हुए श्रवण शर्मा के मकान के उत्तरी सीमा तक पहुंचकर वहां से पश्चिम चलते हुए सड़क पार कर खत्रियों के नोहरे के सामने वाली गली तक पहुंचकर दक्षिण मुड़कर थोडा चलकर पश्चिम मुड़ते हुए दक्षिण चलते हुए पुराना पावर हाउस तक पहुंचकर वहां से थोडा पश्चिम चलकर दक्षिण चलते हुए कब्रिस्तान के सहारे सहारे पूर्व चलकर पुनः उत्तर चलकर पाँच बत्ती चौराहे तक । (रायकॉलोनी, सरदारपुरा)
52.	तनसिंह सर्कल पर स्थित दी मेन्स टेलर्स से पूर्व चलते हुए पातालेश्वर मन्दिर की तरफ उत्तर मुड़कर सीधा मुख्य सड़क तक पहुंचकर सड़क पार कर उत्तर चलते हुए भारथाणियो के मकान तक पहुंचकर वहां से थोडा पूर्व चलकर पुनः उत्तर मुड़कर पूर्व चलते हुए सड़क पार कर गोरधन छीपा के मकान तक पहुंचकर पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए आंटा हाउस के कोर्नर तक पहुंचकर उत्तरी रास्ते से पश्चिम चलते हुए शंकर जी दर्जी के मकान तक पहुंचकर दक्षिण मुड़कर सीधा चलकर पश्चिम मुड़कर आलोक बाल सदन विद्यालय के आगे से सुलभ कॉम्प्लेक्स वाली गली तक पहुंचकर सीधा दक्षिण चलते हुए मुख्य सड़क पार कर पश्चिम चलते हुए दी मेन्स टेलर्स तक । (सुथारो का वास, पातालेश्वर मन्दिर के पास, सरदारपुरा)
53.	जोशियों के शमशान के मुख्य द्वार से सीधा पश्चिम चलते हुए मोहनसिंह सोडा के भवन नारायण निवास तक पहुंचकर पश्चिम रास्ते से दक्षिण चलते हुए सागर प्रोविजन स्टोर तक पहुंचकर आलोक बाल सदन विद्यालय के रास्ते पूर्व चलते हुए उत्तर मुड़कर बाबुलाल दर्जी के मकान तक पहुंचकर पूर्व चलते हुए सड़क पार कर जितेन्द्र सोनी के मकान तक पहुंचकर पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए जोशियों के शमशान दीवार तक पहुंचकर दीवार के सहारे सहारे शमशान के मुख्य द्वार तक । (दर्जियों का वास जोशी शमशान के पास)
54.	तनसिंह सर्किल के पास स्थित परिषद दुकानों से पूर्व की तरफ चलते हुए श्री किशन सोनी के मकान तक पहुंचकर पूर्वी रास्ते से उत्तर चलते हुए सागराराम दर्जी के मकान को लेते हुए नारायण निवास के सामने पहुंचकर वहां से पूर्व की तरफ चलते हुए जोशियों के शमशान मुख्य द्वार तक पहुंचकर आगे जोशियों के शमशान के उत्तरी रास्ते से पूर्व चलते हुए भीखाराम सुथार के मकान तक पहुंचकर उत्तर दिशा में वन विभाग की दीवार तक पहुंचकर दीवार के सहारे सहारे वन विभाग के मुख्य द्वार तक पहुंचकर वहां से अन्दर का भाग (वन विभाग) को लेते हुए पुनः मुख्य द्वार तक पहुंचकर वहां से सीधा दीवार के सहारे सहारे पश्चिम चलते हुए दर्जी प्रकाशचन्द्र खंगारमल के प्लाट के कोर्नर तक पहुंचकर उत्तर की तरफ चलकर रेल्वे कुआ न. 3 के पास श्री जगुजी दर्जी के मकान पहुंचकर श्री प्रहलाद जी दर्जी के मकान से होते हुए बिशाला मार्ग तक पहुंचकर मार्ग के सहारे सहारे दक्षिण चलते हुए तनसिंह सर्किल स्थित परिषद दुकानों तक । (विशाला मार्ग, का पूर्वी भाग, वन विभाग कॉलोनी)
55.	मोडली भाखरी विद्यालय के पास स्थित वन विभाग की बाउण्ड्री से उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए सरस्वती विद्या मन्दिर विद्यालय की ओर जाने वाले रास्ते में थोडा चलकर पश्चिम मुड़ते हुए सुखाराम बिजलाराम के मकान तक पहुंचकर उत्तर चलते हुए परिषद

	सीमा तक पहुंचकर परिषद सीमा के सहारे पश्चिम दिशा में चलते हुए विशाला मार्ग तक पहुंचकर वहां से पुनः दक्षिण दिशा में चलते हुए जेठाजी दर्जी के मकान पहुंचकर वहां से पूर्व चलते हुए खीमाजी दर्जी के मकान पहुंचकर दक्षिण मुड़कर प्रकाशचन्द्र खंगारमल के प्लॉट तक पहुंचकर वन विभाग की बाउण्ड्री के सहारे मोडली भाखरी के विद्यालय तक । (मदरसे वाली गली, हिगंलाज मन्दिर के आस पास का क्षेत्र)
--	---

पवन मीणा,
आयुक्त
नगर परिषद् बाड़मेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।